



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2023)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एन.: 2582-9882

मशरूम उत्पादन: रोजगार का नया आयाम

(“तेजपाल बाज्या¹, ममता देवी चौधरी², ममता बाज्या³ एवं मनीषा शिवराण⁴”)

¹पादप रोग विज्ञान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

²विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध संरक्षण) कृषि विज्ञान केन्द्र, मौलासर, नागौर

³पादप कार्यिकी विज्ञान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब

*संवादी लेखक का ईमेल पता: tejpalbajva93@gmail.com

मशरूम का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग प्राचीनकाल से भारत में होता आया है, जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में मिलता है। पौष्टिक, स्वाद व सुगन्द के कारण मशरूम सदैव ही विश्व में विशिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में अपनाया गया है। प्राकृतिक रूप से उगने के अतिरिक्त मशरूम की खेती कृत्रिम रूप में किए जाने से अधिक कांतिकारी परिवर्तन आया है। तथा विश्व में अधिकांश हिस्सों में मशरूम पैदा किया जाने लगा है लगभग 2000 खाने योग्य मशरूम में से 200 के करीब भारतवर्ष में पायी जाती है, जिसमें से अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगती है।

मशरूम क्या है?

मशरूम एक प्रकार मशरूम एक विशेष प्रकार के इनमें पौधों के सम्मान हरित जैव पदार्थ व इनके अवशेषों उगती है इन पदार्थों से ये जैसी रचना जो पदार्थ के सोखते हैं इसके फल फैले जो बाद में छतरीनुमा हो असंख्य बीज बनते हैं इसकी पर आधारित होने के कारण आर्थिक रूप से लाभकारी हैं।



की खाने योग्य फंफुद है। जैव वर्ग से संबंध रखते हैं पदार्थ नहीं होता है और ये पर सहजीवी के रूप में अपना भोजन कुछ भागों अंदर तक भेद जाते हैं द्वारा हुए अण्डाकार रूप में होते हैं जाते हैं इन छतरीयों में खेती साधारण कृषि अवशेषों

मशरूम का महत्व— मशरूम सदियों से पौष्टिक आहार के रूप में प्रसिद्ध है। इसे पौष्टिकता के आधार पर मांस व सब्जियों के बीच माना जा सकता है मशरूम में अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन, विटामिन्स, तथा मिनरल्स होते हैं। मशरूम में प्रोटीन सभी सब्जियों से अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा बहुत उच्च कोटी का होता है। 20–33 ग्राम प्रोटीन शुष्क भार के आधार पर मशरूम में पाया जाता है इसमें कुछ विशिष्ट कालेस्ट्रोल कम करने वाले पदार्थ भी पाये जाते हैं, जिससे यह हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है मशरूम में एल्केलाइन राख (उच्च सोडियम, पोटेशियम) तथा अधिक रेशेयुक्त होने के कारण यह हाइपर-एसीडीटी तथा कब्ज के मरीजों के लिए लाभदायक है

मशरूम उत्पादन के उद्देश्य— हमारे देश में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं साथ ही देश में प्रोटीन की कमी महसुस की जा रही है मशरूम प्रोटीन तथा पौष्टिक तत्वों से भरपुर भोजन प्रदान करती है जो शाकाहारीयों के लिए बहुत ही लाभदायक है मशरूम की खेती के लिए अधिक जमीन व खेतों की आवश्यकता नहीं होती है इसको घर के खाली कमरे में आसानी से उगाया जा सकता है। मशरूम की खेती बेरोजगारों को रोजगार तथा खेतीहर को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराती है मशरूम की खाद, मशरूम पैदावार लेने के पश्चात पुनः दुसरी फसलों के काम में ली जा सकती है। परिशोधित मशरूम निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।